



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19]

नई दिल्ली, सितम्बर 7-सितम्बर 13, 2008, शनिवार/भाद्र 16-भाद्र 22, 1930

No. 19]

NEW DELHI, SEPTEMBER 7-SEPTEMBER 13, 2008, SATURDAY/BHADRA 16-BHADRA 22, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृष्ठक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II-खण्ड 4

PART II-Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2008

का.नि.आ. 75.-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय, सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपो, भंडार स्टॉफ, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय, सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपो, भंडार स्टॉफ, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय, सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपो, भंडार स्टॉफ, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2006 की अनुसूची में, भंडार अधीक्षक, ज्येष्ठ भंडारी और भंडारी के पद से संबंधित स्तंभ II के शीर्ष की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आपेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता”।

[सं. 11353/आर.आर./डी.जी.ए.एफ.एम.एस./डी.जी-2बी/468/आर.आर./डी.(नियु.)]

सौ. जे. जोश, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में का.नि.आ. सं. 110 तारीख 7 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 5th August, 2008

S.R.O. 75.—In the exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Directorate General Armed Forces Medical Services, Armed Forces Medical Store Depot, Store Keeping Staff, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2006, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Directorate General Armed Forces Medical Services, Armed Forces Medical Store Depot, Storekeeping Staff, Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule of the Ministry of Defence, Directorate General Armed Forces Medical Services, Armed Forces Medical Store Depot, Storekeeping Staff, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2006, relating to the posts of Stores Superintendent, Senior Storekeeper and Storekeeper for the existing entry at the heading of Col. 11, the following entry shall be substituted, namely:—

"Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods"

[No. 11353-RR/DGA/FMS/EXG-2B 468 RR D(Appt.)]

C.J. JOSE, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 4 with SRO No. 110 dated 7th September, 2006.

(रक्षा उत्पादन विभाग)

(गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 5 मितम्बर, 2008

का.नि.आ. 76.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, (समूह 'ख') (रेखांकन) भर्ती नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षेप नाम रक्षा उत्पादन विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, (समूह 'ख') (रेखांकन) भर्ती संशोधन नियम, 2008 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का पञ्चम भाग हैं।

2. रक्षा उत्पादन विभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, (समूह 'ख') (रेखांकन) पर भर्ती नियम, 2004 की अनुसूची के तर्जुमा में, स्तंभ शीर्षक के स्थान पर, निर्भालांशित स्तंभ शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या प्रवर्धन द्वारा या प्रतिनिधित्व द्वारा या आमंत्रण और निश्चयन पद्धतियों द्वारा भर्ती गई रिक्तियों की प्रतिशतता"

[सं. 1/86320-अवर.आर.डाइरेक्टरी/डी.जी.एड.ए. पृष्ठ 16 पी.टी.एम.ए.] 08]

सुभाष चन्द्र, अवर सचिव

पाठ टिप्पण : यह नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 का.नि.आ. सं. 106 तारीख 8 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्कर्ती का.नि.आ. सं. 39 तारीख 23 फरवरी, 2006 द्वारा संशोधित किए गए थे।

(Department of Defence Production)

(Directorate General of Quality Assurance)

New Delhi, the 4th September, 2008

S.R.O. 76.—In the exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance Group 'B' (Drawing) Posts Recruitment Rules, 2004, namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance Group 'B' (Drawing) Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule of the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group "B" (Drawing) Posts Recruitment Rules, 2004, in column 11, for the column heading the following column heading shall be substituted, namely :—

"Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods".

[No. A-86320/RR/Drawing/DGQA/Adm-10/D (DQA)/08]

SUBHASH CHAND, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 4 *vide* SRO No. 106, dated the 8th July, 2004 and subsequently amended *vide* S.R.O. No. 39, dated 22nd February, 2006.

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2008

का.नि.आ. 77.—केंद्रीय सरकार, रक्षा संहिता अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग और उपभोग पर, जो असम राज्य में, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, तेजपुर, के पास की भूमि है, उक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों को अधिरोपित करना आवश्यक है, जिससे कि उक्त भूमि को भवन निर्माणों और अन्य अवरोधों से मुक्त रखा जा सके।

2. उक्त भूमि के रेखाचित्र का, उपायुक्त, सोनितपुर, असम के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

असम राज्य में, रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, तेजपुर की सीमा दीवार के बाहरी मुंडरे के शिखर से पच्चीस मीटर की दूरी में आने वाले क्षेत्र में समाविष्ट संपूर्ण भूमि।

[सं. डीसीडब्ल्यूई/07/34079/डब्ल्यूडीए/डीआरएल]

एस. के. देब, अवर सचिव

New Delhi, the 12th August, 2008

S.R.O. 77.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clause (c) of Section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule hereto annexed, being land lying in the vicinity of Defence Research Laboratory, Tezpur in the State of Assam, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the Deputy Commissioner, Sonitpur, Assam.

SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within the distance of twenty five metres from the crest of the outer parapet of the boundary wall of Defence Research Laboratory, Tezpur in the State of Assam.

[No. DCWE/07/34079/WDA/DRL]

S. K. DEB, Under Secy.